

Date: 11th August, 2022

The Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400001

The Secretary
The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyon Range
Kolkata • 700001

Dear Sir/Madam,

Sub: <u>Copies of un-audited financial results for the quarter ended 30.06.2022</u> <u>Published in the newspapers</u>

Please find the enclosed copies of un-audited financial results for the quarter ended 30.06.2022 published in the newspaper "Financial Express" - English Edition and "Jan Satta" - Hindi Edition on 11.08.2022.

Please take note of the same.

Thanking you,

For Aravali Securities and Finance Limited

Ruchi Shrivastava Company Secretary

Encl:A/a

ARAVALI SECURITIES & FINANCE LIMITED

REGD. OFFICE: RIDER HOUSE, 4th Floor, Plot No. 136, Sector-44, Gurgaon-122003 Phone: +91-124-4556677

CIN: L67120HR1980PLC039125 | Website: www.aravalisecurities.com | 1 Email: info@aravalisecurities.com

FINANCIAL EXPRESS

Sanjeev Goyal

DIN:00221099

Managing Director

Managing Director, DIN: 00997493

E-AUCTION SALE NOTICE E-Auction for Sale of Assets of Woolways (India) Limited (in Liquidation) (Regd. Off.: A-2, Basement Front Side, East of Kailash, New Delhi 110065) Under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Notice is hereby given to the public in general under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and regulations framed thereunder, that the assets/properties in table herein below, will be sold by E-Auction through E-Auction platform: https://ncitauction.auctiontiger.net

August 26, 2022 between 11:00 AM to 04:00 PM Date and Time of E-Auction Last Date for submission of Bid Documents & Last Date for submission of Bid Document & EMD EMD: August 23, 2022 between 10:00 AM to 04:00 PM Inspection Date & Time From August 11, 2022 to August 23, 2022 between 10:00 AM to 04:00 PM. Contact Person Sajeve Bhushan Deora, Mobile: +91 98119 03450 Reserve Price EMD Amount Assets* Lot- 1: Inventory (Ready-made garments and accessories):

Garments and accessories (old and unstitched garments, socks, Rs. 11,21,931 Rs. 1,12,193 belts, shoes, etc.) lying at Plot No. 217, Industrial Area-A, Ludhiana, Punjab 141003. The intending bidder can bid for one (for all Sub-Lots) (for all Sub-Lots) or more Sub-Lots out of 1-38 Sub-Lots (containing 500 pieces in each Sub-Lot). Sub-lot numbers are identified at the Lot- 2: Office Equipment/ Movable Assets [Printer (3 nos.), Desktop (9 nos.), Printer cum Scanner (1 no.), Scanner (1 no.)] Rs. 1,08,000 Rs. 10,800 (for all Sub-Lots) situated and installed at Plot No. 217, Industrial Area A, Ludhiana (for all Sub-Lots) Lot- 3: Immovable Asset (Freehold Land): Agriculture land situated at Village Machhiwara, Hadbast No. 75, Tehsil Machhiwara, District Ludhiana. Khevat No. 982/836, Khatauni Rs. 32,55,300 Rs. 3,25,530 No. 1080, Khasra No. 178//8/2/2 (0-10), 178//13 (7-10); Area: 4

Security interest of Banks/Financial Creditors of the CD over all items of assets listed hereinabove was relinguished in favour of the liquidation estate of the CD. Duties and Taxes as applicable on each Lot wil be extra:

Terms and Condition of the E-Auction are as under: . This E-Auction Sale Notice is for information of the Intending Bidder(s), who intend to participate in sale of assets of Woolways (India) Limited (In Liquidation) through E-Auction.

E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS BASIS, AS IS WHAT IS THERE IS BASIS, AS IS WHATEVER THERE IS BASIS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" through service provider, M/s e-Procurement Technologies Limited- Auction Tiger (Auctioneer). This E-auction Sale Notice should be read in conjunction with the E-Auction Process and Assets Information Document containing details of the Assets and Properties of the CD under E-Auction, E. Auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, and General Terms and Conditions of the E Auction Sale, which are available on the websites: www.woolways.com and not@auctiontiger.ne

nclt@auctiontiger.net. The Liquidator reserves right to withdraw from E-Auction any of the aforementioned Lot/s or a Sub Lot at any time prior to Close of Day for submission of Bid Documents, and any Intending Bidder(s) shall have no right/s or claim/s against the Lot/s or Sub-Lots in the event of aforementioned withdrawal

The contact mobile number is +91 9811903450; Technical support can be reached at +91 97227

78828, and the e-mail id for communications are, in.woolways.sbd@gmail.com and

The Bid Form to be filled by the Intending Bidder for participating in E-Auction provides detailed terms and conditions of E-Auction, and the Intending Bidder is expected to read the Bid Form carefully and submit the Bid Form with EMD before participating in the E-Auction

Saieve Bhushan Deora, Liquidator Woolways (India) Limited (In Liquidation) IBBI Regn. No.; IBBI/IPA-001/IP-P00317/2017-2018/10581 Address: 606, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi-110001 Date: 10.08.2022 Email ID: in.woolways.sbd@gmail.com; sajeve.deora@deora.co Place: New Delhi Contact No.: +91 98119 03450

PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

ı	(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)					
١		FOR THE ATTENTION OF THE CREDITO	RS OF NITYA REALTECH PRIVATE LIMITED			
I		RELEVANT	PARTICULARS			
ı	1.	Name of corporate debtor	Nitya Realtech Private Limited			
I	2.	Date of Incorporation of corporate debtor	17.09.2009			
	3.	Authority Under Which corporate debtor Is Incorporated / Registered	Registrar of Companies-Delhi			
	4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U70109DL2009PTC194433			
	5.	Address of the Registered Office and Principal Office (if any) of corporate debtor	220, Opposite Veternity Hospital Village Burari, Delhi-110084, India			
	6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	05.08.2022 (Copy of Order was received on 09.08.2022)			
	7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	01.02.2023 i.e. 180 days from the date of commencement of CIRP being 05.08.2022			
ı	8.	Name and registration number of the	Sanyam Goel			

18/10397 Resolution Professional 9. Address and e-mail of the Interim Address: Unit No. 110, First Floor, JMD Pacific Square Resolution Professional, as registered Sector 15, Part II, Gurugram-122001, Haryana, India with the Board E-mail: goelsanyam@gmail.com

Insolvency Professional acting as Interim Reg. No. IBBI/IPA-002/IP-N00138/2017-

10. Address and e-mail to be used for Address: Unit No. 110, First Floor, JMD Pacific Square Sector 15, Part II, Gurugram-122001, Haryana, India correspondence with the Interim E-mail: cirp.nityarealtech@gmail.com Resolution Professional 11. Last date for submission of claims 23.08.2022 i.e. 14 days from the date of receiving of copy of Order of Hon'ble NCLT New Delhi Bench IV at New Delhi i.e.09.08.2022

12. Classes of creditors, if any, under clause(B) Yes, Covered under section 5(8)(f) of the Insolvence of sub-section (6a) of section 21, ascertained And Bankruptcy Code, 2016 i.e. Allottees under Real Estate Project by the Interim Resolution Professional

	by the intenim resolution into essional	Near Estate i Toject
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Mr. Aishwarya Mohan Gahrana Mr. Vikky Dang Mr. Pramod Kumar Gupta
14.	(a) Relevant Forms and (b)Details of authorized representatives are available:	a) Web link: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads Physical Address: Unit No. 110, First Floor, JMD Pacific Square, Sector 15, Part II, Gurugram—122001, Haryana, India 1. Name: Aishwarya Mohan Gahrana Reg No.: IBBI/IPA-002/IP-N00135/2017-2018/10351 Add: 4, Birbal Marg, 2nd Floor, Jangpura Extension, New Delhi10014 Email: aishwaryam_gahrana@yahoo.com 2. Name: Vikky Dang Reg No.: IBBI/IPA-003/00359/2021-2022/13763 Add: B-11, Near Mangal Bazar Gurudwara, Vishnu Garden, New Delhi-110018, Email: vikkydang@gmail.com 3. Name: Pramod Kumar Gupta Reg No.: IBBI/IPA-001/IP-P01329/2018-2019/12075 Add: B-1/10, Lower Ground Floor, Hauz Khas, Delhi, 110016

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal New Delhi Bench IV at New Delh has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Nitya Realtech Private Limited on 05.08.2022, Copy of Order was received on 09.08.2022. The creditors of Nitya Realtech Private Limited, are hereby called upon to submit their claims wit proof on or before 23.08.2022 to the interim resolution professional at the address mentioned

E Mail: variety.financial@gmail.com

Dunishers Informations Delivate Limited

against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice o authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.1

to act as authorised representative of the class [allottees under real estate project] in Form CA. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sanyam Goel Interim Resolution Professional Date: 10.08.2022 Place: Gurugram

Reg. No. IBBI/IPA-002/IP-N00138/2017-18/10397 **FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT**

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF PROVIEW INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED RELEVANT PARTICULARS

ı	Ŀ	Name of corporate deptor	Proview intrastructure Private Limited
ı	2.	Date of Incorporation of corporate debtor	04.07.2008
	3.	Authority Under Which corporate debtor Is Incorporated / Registered	Registrar of Companies-Delhi
ı	4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U45200DL2008PTC180512
	5.	Address of the Registered Office and Principal Office (if any) of corporate debtor	220, Opposite Veternity Hospital Village Burari Delhi, North Delhi-110084, India
ı	6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	05.08.2022 (Copy of Order was received on 09.08.2022)
	7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	01.02.2023 i.e. 180 days from the date of commencement of CIRP being 05.08.2022
ı	Q	Name and registration number of the	Sanyam Goel

Insolvency Professional acting as Interim Reg. No. IBBI/IPA-002/IP-N00138/2017-Resolution Professional

	1 tooolatioiii Tolooolollai	16/16661
9.	Address and e-mail of the Interim Resolution Professional, as registered with the Board	Address:Unit No. 110, First Floor, JMD Pacific Square, Sector 15, Part II, Gurugram-122001, Haryana, India E-mail: goelsanyam@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the Interim Resolution Professional	Address:Unit No. 110, First Floor, JMD Pacific Square Sector 15, Part II, Gurugram-122001, Haryana, India E-mail: cirp.proviewinfrastructure@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	23.08.2022 i.e. 14 days from the date of receiving of copy of Order of Hon'ble NCLT New Delhi Bench IV at New Delhi I.e.09.08.2022
12.		Yes, Covered under section 5(8)(f) of the Insolvency And Bankruptcy Code, 2016 i.e. Allottees under a Real Estate Project
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Mr. Aishwarya Mohan Gahrana Mr. Vikky Dang Mr. Pramod Kumar Gupta
14.	(a) Relevant Forms and (b)Details of authorized representatives are available:	a) Web link: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads Physical Address: Unit No. 110, First Floor, JMD Pacific Square, Sector 15, Part II, Gurugram—122001 Haryana, India 1. Name: Aishwarya Mohan Gahrana Reg No.: IBBI/IPA-002/IP-N00135/2017-2018/10351 Add: 4, Birbal Marg, 2nd Floor, Jangpura Extensior, New Delhi10014 Email: aishwaryam_gahrana@yahoo.com 2. Name: Vikky Dang Reg No.: IBBI/IPA-003/00359/2021-2022/13763 Add: B-11, Near Mangal Bazar Gurudwara, Vishnu Garden, New Delhi-110018 Email: vikkydang@gmail.com

E Mail: variety.financial@gmail.com Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal New Delhi Bench IV at New Delh has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Proview Infrastructure Private Limited on 05.08.2022, Copy of Order was received on 09.08.2022. The creditors of Proview Infrastructure Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 23.08.2022 to the interim resolution professional at the address mentioned


3. Name: Pramod Kumar Gupta

Reg No.: IBBI/IPA-001/IP-P01329/2018-2019/12075 Add: B-1/10, Lower Ground Floor, Hauz Khas, Delhi

against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All othe creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13

to act as authorised representative of the class [allottee under real estate project] in Form CA. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sanyam Goel Interim Resolution Professional Reg. No. IBBI/IPA-002/IP-N00138/2017-18/10397



Regd. Office:- 9th Floor, Antriksh Bhavan, 22, K G Marg, New Delhi-110001. Phones:- 011-23357171, 23357172, 23705414, Website: www.pnbhousing.com

Ghaziabad Branch: - PNB Housing Finance Limited, UG Floor SG Beta Tower, Plot no 10 Sector - 3, Vasundhara, Ghaziabad (UP) - 201011 POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY/IES)

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the PNB Housing Finance Ltd. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & in compliance of Rule 8(1) of Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued demand notice/s on the date mentioned against each account calling upon the respective borrower/s to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notice(s)/date of receipt of the said notice/s. The borrower/s having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/s and the public in general that the undersigned has taken possession of the property/les described herein below in exercise powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned against each account. The borrower/s n particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealing with the property/ies will be subject to the charge of PNB Housing Finance Ltd, for the amount and interest thereon as per loan agreement. The borrowers' attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

SI. No.	Loan Account Number	Name of the Borrower/ Co Borrower/ Guarantor	Date of Demand Notice		Date of Possession Taken	Description of the Property/ies Mortgaged
	319/668373 BO:	Mr. Ashish Verma (Borrower) & Mrs. Mano Verma (Co-Borrower	1,900,000,000,000		(Symbolic)	All that part and parcel of property no- B-812, 8, Tower B, Ajnara Le-Garden Phase I, Plot No-GH-02, Sector-16, Noida Ext, Near, Ajnara Homes, Noida, Uttar Pradesh, India- 201301
P	ace: NCR, D	ated: 09-08-2022	20 7	300	Authori	zed Officer, (M/s PNB Housing Finance Ltd.)

NATIONAL CEREALS PRODUCTS LIMITED CIN: L99999HP1948PLC001381

Regd. Office: Solan Brewery (P.O.) Shimla Hills (H.P.) Website: nationalcereals.com, Email: ncp@nationalcereals.com, Tel: 01792-230222 UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022

SL. No.	PARTICULARS	Quarter Ended 30.06.2022	Quarter Ended 30.06.2021	Quarter Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2022 (Audited)
1.	Total Income from Operations (net)	60.63	12.50	23.04	156.57
2.	Net Profit/Loss for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.14)	(8.77)	(3.56)	(16.72)
3.	Net Profit/Loss for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.14)	(8.77)	(3.56)	(16.72)
4.	Net Profit/Loss for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.14)	(8.77)	(3.56)	(16.72)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)	(2.14)	(8.77)	(3.56)	(17.45)
6.	Equity Share Capital	13.15	13.15	13.15	13.15
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.	592.19	609.64	592.19	592.19
8.	Earning Per Share of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations)-				
8	Basic (Rs.)	(0.16)	(0.67)	(0.27)	(1.27)
	Diluted (Rs.)	(0.16)	(0.67)	(0.27)	(1.27)

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosures Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website(s) on which the Company's shares are listed, namely www.cse-india.com (CSE) and Company's website www.nationalcereals.com

Previous period's figures have been recast, wherever necessary.

BY ORDER OF THE BOARD **PUSHPA MOHAN** MANAGING DIRECTOR DIN:- 00229726



Place: Ghaziabad

Date: 10.08.2022

ARAVALI SECURITIES & FINANCE LIMITED CIN - L67120HR1980PLC039125

REGD OFFICE: PLOT No.136, 4th FLOOR, RIDER HOUSE, SECTOR 44, GURGAON-122003, HARYANA Email: info@aravalisecurities.com, Website: www.aravalisecurities.com CTATEMENT OF CTANDALONE UNAUDITED CINANCIAL DECLIFTS

		0	uarter ende	d	Year ended
SI. No.	Particulars	30/06/2022 (Unaudited)	31/03/2022 (Audited)	30/06/2021 (Unaudited)	31/03/2022 (Audited)
1	Total income	19.00	26.01	130.85	356.34
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax, (before Exceptional and/or Extraordinary items)	(8.77)	(7,80)	96.74	226.69
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(8.77)	(7.80)	96.74	226.69
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(8.77)	(23.89)	89.77	165.04
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and the comprehensive Income (after tax)	(8.71)	(26.28)	89.82	162.81
6	Equity Share Capital	1515.38	1515.38	1515.38	1515.38
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)				1499.97
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) Basic : Diluted:	Rs (0.06) Rs (0.06)	Rs 0.16 Rs 0.16	Rs (0.59) Rs (0.59)	Rs 1.09 Rs 1.09

The above is the extract of the detailed format of audited financial results for the quarter ended 30th June 2022, filed with Stock Exchanges under Reguation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited financial results are available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) where the securities of the Company is listed and on the website of the Company at www.aravalisecurities.com.

The above financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), having regard to the recognition and measurement principles laid down in Ind AS 34 ("Interim Financial Reporting") and other recognized accounting practices generally accepted in India and in compliance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations"). The aforementioned audited result of the company for the quarter ended 30th June 2022 have been reviewed by the Audit Committee and

approved by the Board of Directors in their meeting held on 10th August, 2022. The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the aforementioned unaudited Financial result of the company for

the quarter ended 30th June, 2022 and has given unmodified opnion on the same. Provision for taxation under Income Tax Act, 1961 has been made based on the anticipated taxable income for the year as a whole.

The Company's operations at present are confined to only one segment i.e. providing Financial and Other Advisory Services and accordingly there are no separate reportable operating segments as per Ind AS 108 - Operating Segments.

The figures for the quarter ended 31st March 2022 are the balancing figures being difference between the audited figures in respect of year ended 31st March 2022 and the publised year to date figures upto the third guarter ended 31st December, 2021 of the relevant financial year.

The Figures of the previous quarter / year have been regrouped / rearranged whenever necessary, in order to make them comparable. By order of the Board For Aravali Securities & Finance Limited Ranjan Kumar Poddar

Date: 10" Aug. 2022 Place : Gurgaon. Chairman & Managing Director



HINDUSTHAN URBAN INFRASTRUCTURE LIMITED CIN: L31300DL1959PLC003141

Regd, Office: Kanchenjunga, 7th Floor, 18, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 www.hindusthanurban.com, Phone: 011-23310001 (5 Lines), E-mail:investors@hindusthan.co.in

udited Standalane and Concellidated Financial Popults, for the Quarter ended 20th June 2022

							(₹ in Lak	hs except per	share data)
			STAND	ALONE			CONSO	LIDATED	
Sr	Darticulara	0	uarter ended		Year Ended		Quarter ende	d	Year Ended
No	Particulars	June 30, 2022 (Unaudited)	Mar 31, 2022 (Audited)	June 30, 2021 (Unaudited)	Mar 31, 2022 (Audited)	June 30, 2022 (Unaudited)	Mar 31, 2022 (Audited)	June 30, 2021 (Unaudited)	Mar 31, 2022 (Audited)
1.	Total income from operations	5,341.77	6,868.24	6,874.30	28,922.17	14,874.44	18,909.59	17,576.84	73,988.51
2.	Net Profit/(Loss) for the period/year (before tax and Exceptional items)	(443.36)	(346.12)	(652.16)	(2,040.95)	(1469.44)	(1,536.52)	895.56	(861.05)
3.	Net Profit/(Loss) for the period/year before tax (after Exceptional items)	(443.36)	(346.12)	(652.16)	(2,040.95)	(1469.44)	(1,536.52)	895.56	(861.05)
4.	Net Profit/(Loss) for the period/year after tax and Exceptional items	(273.28)	(176.20)	(406.08)	(1,263.52)	(908.99)	(1,054.40)	744.60	(376.02)
5.	Total Comprehensive Income for the period/ year [Comprising Profit / (Loss) for the period/ year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(286.81)	(236.71)	(403.95)	(1,317.62)	(920.40)	(1,107.30)	747.01	(421.68)
6.	Equity Share Capital	144.29	144.29	144.29	144.29	144.29	144.29	144.29	144.29
7.	Other Equity				44,435.51				41,477.70
8.	Earnings per share of Rs 10 each (a) Basic (Rs) (b) Diluted (Rs)	(18.94) (18.94)	(12.21) (12.21)	(28.14) (28.14)	(87.57) (87.57)	(44.71) (44.71)	(47.82) (47.82)	18.51 18.51	(51.59) (51.59)


Place: New Delhi

Date : 10" August, 2022

The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Financial Results for the guarter ended June 30, 2022, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2022 along with limited review report of the Statutory Auditors is available under Investors section of our website at www.hindusthanurban.com and under Financial Results at Corporate section of www.bseindia.com.

The above un-audited standalone & consolidated financial results were subject to limited review by the Statutory Auditors of the company reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 10th August, 2022. The Review Report of the Statutory Auditors is being filed with the Bombay Stock Exchange. By Order of the Board For HINDUSTHAN URBAN INFRASTRUCTURE LIMITED

(DEEPAK KEJRIWAL) MANAGING DIRECTOR DIN: 07442554



Regd Office:- B-10 VIP Colony, Civil Lines Rampur UP-244901 Corp Office: - 201 & 202 Second Floor Rattan Jyoti Building, 18, Rajendra Place, New Delhi-110008 Ph: 011-47631025, 26, 27 Email: compliances@pmcfincorp.com website: www.pmcfincorp.com

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the guarter ended 30th June, 2022

	Q	uarter Ende	d	Year Ended
Particulars	30.06.2022 Unaudited	31.03.2022 Audited	30.06.2021 Unaudited	31.03.2022 Audited
Total Income from Operation (Net)	217.63	347.38	81.23	738.19
Net Profit/(Loss) from the Ordinary Activities after Tax	75.63	(102.49)	45.78	181.26
Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Extraordinary items)	75.63	(102.49)	45.78	181.26
Total Comprehensive Income for the period (Comprising of Profit/Loss and other Comprehensive Income)	179.38	(133.91)	41.34	218.92
Equity Share Capital	5340.61	5090.61	5090.61	5090.61
Reserve (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year)	5807.63	2,289.50	2,125.09	2,289.50
Earning Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 1/- each)	0.00000	1000048	20000	140,000
Basic:	0.03	(0.03)	0.01	0.04
Diluted:	0.03	(0.03)	0.01	0.04
Earning Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 1/- each)				
Basic:	0.03	(0.03)	0.01	0.04
Diluted :	0.03	(0.03)	0.01	0.04

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarter ended 30.06.2022 Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirments) Regulation, 2015. The Full format of the Quarter ended Financial Results are available with Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Comapny's website www.pmcfincorp.com. The Detailed Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30.06.2022 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meeting held on 10.08.2022. The figures of the previous period/year have been regruped/recast, wherever considered necessary, to confirm to current year classification. For PMC FINCORP LIMITED

Place: New Delhi RAJ KUMAR MODI Date: 10.08.2022 Managing Director

Mahaan Foods Limited

Regd. Office: M-19. 1st Floor, M Block Market, Greater Kailash-II, New Delhi-110048 Tel: 011-43107200, Fax: 011-43107250, E-mail: info@mahaanfoods.com, Website: www.mahaanfoods.com CIN: L15419DL1987PLC350285

90			(Rs. in Lakhs, Unless	Otherwise Stated
s.	\$45-9960-01-0	Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended
No.	Particulars	30/06/2022 Unaudited	30/06/2021 Unaudited	31/03/2022 Audited
1	Total income from operations	38.23	9.00	52.17
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	27.84	(0.30)	20.19
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	27.84	(0.30)	20.19
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	28.10	(0.10)	15.45
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	28.10	(0.10)	15.45
6	Equity Share Capital	350.07	350.07	350.07
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		× ×	1473.82
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic:	0.80	(0.00)	0.44
	2. Diluted:	0.80	(0.00)	0.44

 The above financial results have been reviewed by the audit committee and taken on record by the board of directors. in its meeting held on 09th August, 2022.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and the company's website www.mahaanfoods.com. For Mahaan Foods Limited

Date: 09/08/2022

Place: New Delhi

(Rs. In Lakhs)

VAMA INDUSTRIES LIMITED CIN: L72200TG1985PLC041126 Regd. Off. Ground Floor, 8-2-248/1/7/78/12,13, Block-A, Lakshmi Towers,

Nagarjuna Hills, Punjagutta, Hyderabad - 500082 Phone No. +91-40-6684 5534, Fax No. +91-40-23355821 Email id: services@vamaind.com, website: www.vamaind.com Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter Ended 30th June 2022

(Rs in Lakhs) except EPS

S.	A DES PRODUCIONES AND	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended
No	Particulars	30.06.2022 Unaudited	31.03.2022 Audited	30.06.2021 Unaudited
1	Total income from operations (net)	143.72	1,689.78	213.39
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.03)	4.44	12.38
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.03)	4.44	12.38
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.51)	5.15	11.58
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(1.51)	5.15	11.58
6	Equity Share Capital	1,050.80	1,050.80	1,050.80
7	Earnings Per Share (Face value of Rs. 2/- each) for continuing and discontinued opearations Basic; Diluted:	71 1	0.01 0.01	0.02 0.02

c		Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ende	
No	Particulars	30.06.2022 Unaudited	31.03.2022 Audited	30.06.2021 Unaudited	
1	Total income from operations	112.28	1,574.83	184.87	
2	Net profit before tax	(11.69)	9.15	1.03	
3	Net profit after tax	(11.17)	9.86	0.76	

Place: Hyderabad

meeting held on 10" Aug, 2022. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on company's website at www.vamaind.com and on the stock exchange website www.bseindia.com For Vama Industries Limited Sd/- V. Atchyuta Rama Raju Date: 10.08.2022

ANKA INDIA LIMITED

Regd off: 41 Shivalik Building Near Saraswati Hospital/Telephone Exchange Old Delhi Road Gurgaon-122001; CIN: L74900HR1994PLC033268; Phone no:011-49067646; website: www.ankaindia.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2022

S.	Uniconstant works	Quarter	Quarter ended (Unaudited)						
N.	Particulars	30-Jun-22 Unaudited	180720 0000000000000000000000000000000000	SQL Between countries and construction					
1	Total Income from Operations (net)								
2	Net Profit for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(5.93)	(5.24)	(17.21)					
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(5.24)	(5.24)	(17.21)					
4	Net Profit/ (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(5.24)	(5.24)	(17.21)					
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-	N-26	2					
6	Equity Share Capital (Having Face Value of Rs 10 Each)	62.74	62.74	62.74					
7	Other Equity	NA	NA	NA					
8	Earnings Per Share (before Extraordinary items) (Face Value of Re.10/- each)	72000	70000000	100.700.00					
	Basic:	(0.08)	(80.0)	(0.27)					
	Diluted:	(0.08)	(0.08)	(0.27)					

The above results are an extract of the detailed format of Statement of Standalone audited Financial Results for the Quarter ended 30" June, 2022 filed with BSE LTD. under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Statement of Standalone audited Financial Results for the Quarter ended 30" June, 2022 are available on the Stock Exchange websites at (www.bseindia.com) as well as on the

Company's Website at (www.ankaindia.com). Attention is drawn to Note 3 to the statement that the Company continues to recognize minimum alternative tax paid in previous years amounting to Rs. 25.20 Lakhs as asset and expects the same to be adjusted against future tax payments. In our view, considering the history of losses, which is resulting into negative net worth of the Company and overall financial position of the Company, it is not prudent on part the company to recognize the same as assets, and the same is not in consonance with provisions of ""Guidance Note on accounting for credit available in respect of Minimum Alternative Tax under the Income Tax Act, 1961.

> For ANKA INDIA LIMITED SULAKSHANA TRIKHA

Place: Delhi

By order of the Board The auditor has given the above qualified opinion. Date: 10/08/2022

DIRECTOR New Delhi

financiale

Date: 10.08.2022

Place: Gurugram

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमिटेड (भारतीय रिजर्व बैंक की सम्पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी) नोट मुद्रण नगर, मैसुरु - 570 ु003, कर्नाटक, भारत

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड **Chola कॉर्पोरेट कार्यालय** : प्रथम तल, डेयर हाउस, नं. २, एन.एस.सी. बोस रोड, चेन्नई-600 001. **शाखा कार्यालय** : 1ला तथा 2सरा तल. प्लॉट नं. 6. मेन पसा रोड. करोल बाग. नई दिल्ली-110005

नियम 8(1) के <u>तहत</u>

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनानमाण तथा प्रातभात हित प्रवतन अधिनियम, 2002 के तहत मैसर्स चोलामण्डलम का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग मे नीचे कॉलम (बी) में सुचित नाम वाले कर्जदारों से नीचे कॉलम (डी) में सुचित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज का कथित सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए कॉलम (सी) में निर्दिष्ट तिथियों पर मांग सूचनाएं जारी की थीं।

ने नियमों के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) तथा उसके तहत निर्मित नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में यहां नीचे कॉलम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक सम्पत्तियों पर कॉलम (एफ) में वर्णित सम्बन्धित तिथियों पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों को तथा जनसामान्य को एतद्वारा नीचे कॉलम (ई) में वर्णित सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और ऐसा कोई संव्यवहार कॉलम (डी) में वर्णित राशि एवं ब्याज सहित अन्य प्रभारों के लिए मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रभार

कर्जदारों द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने के कारण, एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदारों को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी

प्रतिभृतिकरण अधिनियम की धारा 13(8) के तहत कर्जदार बिक्री की अधिसुचना से पूर्व समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों सहित सम्पूर्ण बकायों का भगतान करके प्रतिभृत आस्ति विमोचित कर सकते हैं।

क्र.	कर्जदार का नाम तथा पता	मांग सूचना	बकाया	कब्जाकृत सम्पत्ति	सांकेतिक कब्जे
सं.	और ऋण खाता संख्या	की तिथि	सशि	का विवरण	की तिथि
1.	B ऋण खाता सं. X0HEELD00002545961 तथा X0HEELD00002544676) 1 सुनील कुमार 2. स्वीटी एस. पता : म.नं. 985/1, गली नं. 4, अशोक विहार फेज 1, निकट स्नेह हॉस्पिटल, अशोक विहार, गुरुग्राम, हरियाणा-122001	19.03.2022	र. 51,40,848.99/- तिथि 28-02-2020	E सम्पत्ति सं. 985/1, क्षेत्रफल माप 267 वर्ग गज, खसरा नं. 2897, 2898, वाका मौजा अशोक विहार फेज 1, गुरुग्राम, गुरुग्राम निगम सीमा के भीतर, हरियाणा	०८ अगस्त, २०२२

(आईएसओ 9001-2015 प्रमाणित क.) (CIN: L74900DL1984PLC018679)

संयुक्त कार्याः: एससीओ 829-830,सेक्टर 22-ए, चंडीगढ़-160022,

दुरभाष: +91 821 2582905/15/25, फैक्स नं.: + 91 821 2582099 राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली / खुली निविदा समीक्षा

BRBNMPL निम्नलिखित निविदाओं के लिए पात्र बोलीदाताओं से बोलियां आमंत्रित करता है: 1. निविदा सं. 027/MYS/MMD/2022-23- बीआरबीएनएमपीएल. मैस्रु में सोडियम हाइडॉक्साइड (NaOH) फ्लेक्स की आपूर्ति।

2. निविदा सं. 028/MYS/MMD/2022-23- बीआरबीएनएमपीएल, मैस्रु में ट्रायल प्रिंटिंग पेपर - हल्का नीला की आपूर्ति (705 मिमी x 820 मिमी)। 3. निविदा सं. 029/MYS/MMD/2022-23- बीआरबीएनएमपीएल, मैसूरु में पेर्लाइट

पाउडर की आपूर्ति। निविदा सं. 030/MYS/MMD/2022-23- मैसूरु (कर्नाटक) में बीआरबीएनएमपीएल प्रेस के लिए बाय बैक के साथ रोलर कोटर मशीन का डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना,

कमीशन, प्रशिक्षण और प्रदर्शन परीक्षण। निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए, उपरोक्त निविदाएं जमा कराने की अंतिम तिथि एवं अन्य विवरण हेतु कृपया हमारी वेबसाइट www.brbnmpl.co.in पर जाएं। भविष्य में इन निविदाओं में कोई भी शुद्धिपत्र / सुधार जारी किए जाने पर केवल कंपनी की वेबसाइट पर अधिसचित किया जाएगा। वरि. महाप्रबंधक

पाल मचन्ट्स

फोनः 0172-5041786, 5025090, फैक्सः 0172-5041709, ई-मेलः info@paulmerchants.net, वेबसाइटः www.paulmerchants.net, पंजीकृत कार्याः डीएसएम 335, 336, 337, 3रा तल, डीएलएफ टावर, 15, शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015, फोनः 011-48702000 ਸ਼ਾਮਤ ਰਿਸ਼ਾਰੀ ਕੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਕੱਤ ਸਕੂੰ ਕੰਸ਼ਮੈਰਿਵੇਟਿਤ ਸ਼ਹਿਸਮੁੱਧ ਦਾ ਸਮਰਾ

			स्टैंड	एलान	-7		कं	सालिडेटिड	
क्र. सं.	विवरण	30.06.2022 को समाप्त तिमाही	पूर्व वर्ष में 30.06.2021 को समाप्त समरूपी तिमाही	30.06.2022 को वर्ष दर वर्ष आंकड़े	31.03.2022 को समाप्त पूर्व वर्ष	30.06.2022 को समाप्त तिमाही	पूर्व वर्ष में 30.06.2021 को समाप्त समरूपी तिमाही	30.06.2022 को वर्ष दर वर्ष आंकड़े	31.03.2022 को समाप्त पूर्व वर्ष
55		अनेकेक्षित	अनेकेक्षित	अनंकेक्षित	अकेक्षित	अनेकेक्षित	अनेकेक्षित	अनेकेक्षित	अंकेक्षित
1.	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	1,80,846	1,13,347	1,80,846	5,28,073	1,83,383	1,15,191	1,83,383	5,36,503
2.	अवधि के लिए कुल लाभ (कर, विशेष तथा/या असाधारण मदों से पूर्व)	750	653	750	2,802	1,522	1,231	1,522	5,458
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए कुल लाभ (विशेष	750	584	750	2,738	1,522	1,162	1,522	5,394

तिथि : 11/08/2022, स्थान : दिर्ल्ल

Idatai	को समाप्त तिमाही	30.06.2021 को समाप्त समरूपी तिमाही	को वर्ष दर वर्ष आंकड़े	को समाप्त पूर्व वर्ष	को समाप्त तिमाही	30.06.2021 को समाप्त समरूपी तिमाही	को वर्ष दर वर्ष आंकड़े	को समाप्त पूर्व वर्ष
	अनेकेक्षित	अनेकेक्षित	अनंकेक्षित	अकेक्षित	अनेकेक्षित	अनेकेक्षित	अनेकेक्षित	अंकेक्षित
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	1,80,846	1,13,347	1,80,846	5,28,073	1,83,383	1,15,191	1,83,383	5,36,503
अवधि के लिए कुल लाभ (कर, विशेष तथा/या असाधारण मदों से पूर्व)	750	653	750	2,802	1,522	1,231	1,522	5,458
कर से पूर्व अवधि के लिए कुल लाभ (विशेष तथा/या असाधारण मदों के बाद)	750	584	750	2,738	1,522	1,162	1,522	5,394
कर के बाद अवधि के लिए कुल लाभ (विशेष तथा/या असाधारण मदों के बाद)	575	415	575	2,039	1,136	853	1,136	4,017
अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) के लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल करके]	567	411	567	2,035	1,125	848	1,125	4,012
इक्किटी शेयर पूंजी	102.80	102.80	102.80	102.80	102.80	102.80	102.80	102.80
आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार पुनः मृल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)	एनए	एनए	एनए	39,042	एनए	एनए	एनए	39,221
आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) (10/- रुपए प्रति) जारी तथा बंद प्रचलनों के लिए 1. मूल 2. तनुकृत	55.96 55.96	40.40 40.40	55.96 55.96	198.35 198.35	110.47 110.47	83.02 83.02	110.47 110.47	390.77 390.77
	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए कुल लाभ (कर, विशेष तथा/या असाधारण मदों से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए कुल लाभ (विशेष तथा/या असाधारण मदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए कुल लाभ (विशेष तथा/या असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) के लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल करके] इंक्विटी शेयर पूंजी आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार पुनः मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) (10/- रुपए प्रति) जारी तथा बंद प्रचलनों के लिए 1. मूल	अनेकेक्षित प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए कुल लाभ (कर, विशेष तथा/या असाधारण मदों से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए कुल लाभ (विशेष तथा/या असाधारण मदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए कुल लाभ (विशेष तथा/या असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिए कुल लाभ (विशेष तथा/या असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) के लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल करके] इक्विटी शेयर पूंजी आरिश्वत (पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार पुनः मूल्यांकन आरिश्वतों को छोड़कर) आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) (10/- रुपए प्रति) जारी तथा बंद प्रचलनों के लिए 1. मूल 55.96	को समाप्त तिमाही अनेकेक्षित प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए कुल लाभ (कर, विशेष तथा/या असाधारण मदों से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए कुल लाभ (विशेष तथा/या असाधारण मदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए कुल लाभ (विशेष तथा/या असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिए कुल लाभ (विशेष तथा/या असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिए कुल लाभ (विशेष तथा/या असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) के लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल करके] इंक्विटी शेयर पूंजी 102.80 102.80 102.80 आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार पुनः मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) (10/-रुपए प्रति) जारी तथा बंद प्रचलनों के लिए 1. मूल 55.96 40.40	को समाप्त तमाही अनेकेक्षित अनेक्षित अनेकेक्षित अनेक्षित अनेकेक्षित अनेकेक्षित अनेकेक्षित अनेकेक्षित अनेकेक्षित अनेकिक्षित अनेकेक्षित अनेकिक्षित अनेकि	को समाप्त तिमाही अंग्रेस समाप्त समस्पी तिमाही अंग्रेस समाप्त समस्पी तिमाही अनेकिश्वत अंग्रेस समाप्त पूर्व वर्ष वर्ष आंकड़े पूर्व वर्ष वर्ष वर्ष के कुल आय (शुद्ध) 1,80,846 1,13,347 1,80,846 5,28,073 अविध के लिए कुल लाभ (कर, विशेष तथा/या असाधारण मदों से पूर्व) 550 653 750 2,802 कर से पूर्व अविध के लिए कुल लाभ (विशेष तथा/या असाधारण मदों के बाद) 575 415 575 2,039 लिथा/या असाधारण मदों के बाद) 575 415 575 2,039 अविध के लिए कुल व्यापक आय (अविध (कर के बाद) के लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल करके] 567 411 567 2,035 वर्ष वर्ष के लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल करके] 102.80 102.80 102.80 102.80 आरिश्वत (पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार पुनः मूल्यांकन आरिश्वती को छोड़कर) जाय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) (10/- रुपए प्रति) जारी तथा बंद प्रचलनों के लिए 1, मूल 55.96 40.40 55.96 198.35	को समाप्त तिमाही को समाप्त तमाही को समाप्त तमाही अनंकेक्षित अनंकेक्षित अनंकेक्षित अनंकेक्षित अनंकेक्षित अनंकेक्षित अनंकेक्षित अनंकिष्तत अनंकिष्तत अनंकिष्तत अनंकिष्तत अनंकिष्तत अनंकिष्तत प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध) 1,80,846 1,13,347 1,80,846 5,28,073 1,83,383 अवधि के लिए कुल लाभ (कर, विशेष तथा/या असाधारण मदों से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए कुल लाभ (विशेष तथा/या असाधारण मदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए कुल लाभ (विशेष तथा/या असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिए कुल लाभ (विशेष तथा/या असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) शामिल करके] इंक्विदी शेयर पूंजी आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार पुनः मृत्योकन आरक्षितों को छोड़कर) आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) (10/- रुपए प्रति) आरी तथा बंद प्रचलनों के लिए 1, मूल 55.96 40.40 55.96 198.35 110.47	को समाप्त तमाही अं. समाप्त समस्यि तिमाही अं. सम्प्र समस्यि तिमाही अं. समाप्त समस्यि तिमाही अं. सम्प्र समस्य सम्य सम	को समाप्त तिमाही अंग्रेस वर्ष आंकड़े वर्ष को समाप्त तमाही अंग्रेस वर्ष आंकड़े वर्ष वर्ष वर्ष आंकड़े वर्ष वर्ष आंकड़े वर्ष वर्ष आंकड़े वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष

स्थानः चंडीगढ

तिथि: 09.08.2022

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक: 10.08.2022

- 1. उपरोक्त सेबी (एलओडीआर), विनियमों, 2015 के विनियम 33 के अधीन शेयर बाजार में दाखिल कंपनी के तिमाही और छमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही परिणामों के पूर्ण प्रारूप बीएसइ लिमिटेड की वेबसाइट http://www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट http://www.paulmerchants.net पर भी उपलब्ध है।
- 2. कंपनी ने 01.04.2017 से इंड-एएस को अपना लिया है। इन वित्तीय परिणामीं का सारांश सेबी परिपत्र ने. CIR/CFD/FAC/62/2016 दिनांक 05.07.2016 के सहित कंपनीज (भारतीय लेखांकन मानदंड) नियमों, 2015 (इंड-एएस) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखांकन मानदंड (इंड-एएस) के तद्नुसार तैयार किया गया है।
- 3. 30.06.2022 को समाप्त तिमाही के लिए उपरोक्त अलेखापरीक्षित स्टैंडएलोन और कंसोलिडेटिड वित्तीय परिणामीं की 09.08.2022 को आयोजित बैठक में ऑडिट कमेटी द्वारा समीक्षा और

सिफारिश की गई है तथा 10.08.2022 को आयोजित निदेशकों के बोर्ड की बैठक द्वारा अनुमोदित तथा रिकॉर्ड पर लिया गया है। बोर्ड के आदेशानुसार

रजनीश बंसल प्रबंध निदेशक डीआइएन-00077230

अल्केमिस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: L74899DL1993PLC055768

🌣 पंजी. कार्यालय: आर-4, यूनिट 103, पहली मंजिल, खिरकी एक्सटेंशन मेन रोड,मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 🖂 ई-मेल: info@alchemist-corp.com, | 📞 फ्रोन: 011-29544474

30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही का अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम

		स्टैंडएलान				समेकित				
विवरण		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		
	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022		
	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)		
परिचालनों से कुल आय			5.70	5.70	85	-	5.70	5.70		
कर तथा एसोसिएट्स एवं संयुक्त उपक्रमों में (हानि)/लाभ के शेयर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	(0.62)	22.88	(1.59)	9.90	(0.65)	22.76	(1.61)	9.46		
कर तथा विशिष्ट मदों के बाद अविध के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	(0.62)	(148.14)	(1.59)	(161.12)	(0.65)	(148.25)	(1.61)	(161.56)		
अविध के लिए कुल व्यापक (हानि)/ आय	(0.62)	(148.14)	(1.59)	(161.12)	(0.65)	(148.25)	(1.61)	(161.56)		
प्रदत्त इक्विटी पूंजी (सम मूल्य रु. 10/- प्रति)	491.43	491.43	491.43	491.43	491.43	491.43	491.43	491.43		
पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त आरक्षित (अंतिम अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार)	2	1		(396.35)				(396.81)		
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (वार्षिकीकृत नहीं)				8 8						
मूल	(0.01)	(3.01)	(0.03)	(3.28)	(0.01)	(3.02)	(0.03)	(3.29)		
तरल	(0.01)	(3.01)	(0.03)	(3.28)	(0.01)	(3.02)	(0.03)	(3.29)		

1. उपरोक्त स्टैंडएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणामों को उसके अंतर्गत जारी संबंधित नियमों तथा लागू होने वाली सीमा तक अन्य मान्यता प्राप्त लेखा सिद्धांतों तथा नीतियों के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (''इंड एएस'') के अनुसार तैयार किया गया है। 2. उपरोक्त सेबी (सुचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल 30 जुन, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडएलॉन एवं समेकित) के विस्तृत प्रारूप का सार

है। 30 जुन, 2022 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडएलॉन एवं समेकित) का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.alchemist-corp.com) पर उपलब्ध है। बोर्ड के आदेश से

एल्केमिस्ट कॉर्पोरेशन लि. के लिए

(र्रामिया आंकरे छोरका के व्यावों में

पूजा रस्तोगी

(प्रबंध निदेशक DIN: 00210858

JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED

Regd. Office: Sector 128, Noida 201 304 [U.P]

Head Office: "JA House", 63, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110 057 **Phone:** + 91 (120) 4609000; **FAX:** + 91 (120) 4609464; **CIN:** L14106UP1995PLC019017 **Website:** www.jalindia.com, **E-mail:** jal.investor@jalindia.co.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2022

(₹ in Lakhs)

	``	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter	Quarter	Quarter	Year	Quarter	Quarter	Quarter	Year
	Particulars	Ended	Ended	Ended	Ended	Ended	Ended	Ended	Ended
		30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022
		[Unaudited]	[Audited]	[Unaudited]	[Audited]	[Unaudited]	[Audited]	[Unaudited]	[Audited]
1.	Total Income from Operations	100143	113695	97971	422006	183976	197167	148428	703413
2.	Net Profit / (Loss) for the period [before Tax, Exceptional and Extraordinary Items]	(36096)	(48436)	(17348)	(119858)	(35553)	(55187)	(29075)	(148746)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax [after Exceptional and Extraordinary Items]	(36096)	(50242)	(17348)	(121664)	(35553)	(55187)	(29075)	(148746)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax [after Exceptional and Extraordinary Items]	(36291)	(50595)	(17676)	(123188)	(38137)	(54591)	(29315)	(149832)
5.	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(36291)	(50425)	(17676)	(123018)	(38138)	(54415)	(29309)	(149726)
6.	Equity Share Capital [of ₹ 2/- per share]	49092	49092	48978	49902	49092	49092	48978	49092
7.	Other Equity [excluding Revaluation Reserve]				589764				(40626)
8.	Earnings Per Share [of ₹ 2/- per share] [for continuing and discontinued operations]:								
	Basic	₹ (1.48)	₹ (2.06)	₹ (0.72)	₹ (5.02)	₹ (1.53)	₹ (2.20)	₹ (1.18)	₹ (6.02)
	Diluted	₹ (1.48)	₹ (2.06)	₹ (0.72)	₹ (5.02)	₹ (1.53)	₹ (2.20)	₹ (1.18)	₹ (6.02)

The above is an extract of the detailed format of Quarter ended 30th June, 2022 Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended 30th June, 2022 Financial Results are available on the Stock Exchanges Website www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's Website, www.jalindia.com.

Place: Greater Noida

MANOJ GAUR Executive Chairman DIN - 00008480

सार्वजनिक सूचना (खोया/पाया)

एतदद्वारा यह सुचित किया जाता है कि मूल दस्तावेज जो स्टेट बैंक ऑफ जावणकोर, शाखा तिलक नगर सभाष नगर में आवास ऋण खाता संख्या 67058857552 मूल रूप में जमा किए गए थे; जिसे बाद में भारतीय स्टेट बैंक आरएसीपीसी, नारायणा, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। बैंक परिसर के भीतर पता लगाने योग्य नहीं है/हैं, बैंक ने उन संपत्ति दस्तावेजों को गुम / गैर-पता लगाने योग्य के रूप में सुवित / घोषित किया और सभी गंभीर प्रयासों के बावजूद इसे नहीं पाया। बैंक के पास के पास बंधक दस्तावेज का विवरण निम्नानुसार है: मूल बिक्री विलेख दिनांक 28.05.2008 श्रीमती नैना नागी पत्नी पवन नागी की द्वारा श्री जितेंद्र बौधरी श्री दिगंबर बौधरी के पक्ष में संपत्तिः दूसरी मंजिल पर निर्मित संपत्ति की छत / छत के अधिकार के साथ प्लॉट नंबर डी—18 ए, परिचम की ओर 75 वर्ग मीटर की दूरी पर yds यानी 62.71 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 83 / 4 और 88 / 24 में से, ग्राम इस्तसाल दिल्ली एस्टेट दिल्ली की राजस्व संपत्ति में स्थित, क्षेत्र आबादी जिसे कॉलोनी बाल उदयान रोड, डी—बॉक उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 के रूप में जाना जाता है. विधिवत पंजीकत है. पंजीकरण संख्या 12496, बुक नंबर–I. बही संख्या 16062, पृष्ठ 109–118, दिनांक 28.05.2008, उपयुंक मूल दस्तावेज बैंक द्वारा मिल नहीं रहे हैं / पता नहीं बल रहे हैं, मूल रूप से पता लगाने योग्य नहीं है और सभी गंभीर प्रयासों के बावजूद नहीं मिला है, इसीलिए लापता के रूप में सुचित किया जाता है।, एक ऑनलाइन गुमशुदगी की शिकायत/एनसीआर/एलआर दिल्ली पुलिस, पीएस क्राइम ब्रांच के साथ LR no. 679402 / 2022, दिनांक 10.08.2022 के तहत पंजीकृत है। यदि किसी को उपर्युक्त सभी या कोई दस्तावेज मिलते हैं तो कपया तत्काल सूचित करें / उपर्युक्त पते पर अधोहस्ताक्षरी को लौटा दें। किसी भी या सभी उक्त दस्तावेज के किसी भी दुरुपयोग पर कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। सहायक महाप्रबंधक

> भारतीय स्टेट बैंक, शाखाः आरएसीपीसी, भूतल, सी-59, सामुदायिक केंद्र, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र पोज-I. नई दिल्ली-110028, ईमेल आईडी: sbi.50792@sbi.co.in

अस्विधा के लिए खेद है।

वंडर फाइब्रोमैट्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 45, भूतल, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज-।।।, नई दिल्ली-110020 सीआईएनः L31900DL2009PLC195174, वेबसाइटः www.wonderfibromats.com, दूरभाषः 011.66058952 30 जून 2022 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(रुपए लाख में) समाप्त तिमाही विवरण 30-जून-22 10439.59 39836.42 **3** कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ (आपवादिक ए

असाधारण मदों के उपरांत) असाधारण मदों के उपरांत) **5** अवधि हेतु कुल व्यापक आय अवधि हेत् लाभ / (हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट] 837 55 7 अन्य समताएं (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़क 4014 35 पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र निदर्शितानुसार **8** आय प्रति अंश (रु. 10 / – प्रति अंश का अंकित मूल्य (अवार्षिकीकृत)

टिप्पणियांः

मुल आय प्रति अंश (रुपए में) तरलीकृत आय प्रति अंश (रुपए में)

उपरोक्त सारांश, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध त्रैमासिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश हैं। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाइट (www.wonderfibromats.com) पर तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (www.bseindia.com, www.nseindia.com) पर उपलब्ध है।

2. उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षक समिति द्वारा की गई थी तथा तत्पश्चात निदेशक मंडल द्वारा 10 अगस्त 2022 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में इनका अनुमोदन किया गया। दिनांक 30 जून 2022 को समाप्त तिमाही की सीमित समीक्षा, सेबी (एलओडीआर) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत अपेक्षितानुसार, संवैधानिक लेखापरीक्षक द्वारा की गई है।

पूर्ववर्ती अवधियों के आंकड़ों को जहां अनिवार्य समझा गया है, वहां पर पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत किया बोर्ड की ओर से

> कृते वंडर फाइब्रोमैट्स लिमिटेड हर्ष कुमार आनंद

> > अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(0.10)

शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड हार

कम्पनी का 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही व

अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम के विषय में जारी

जनसत्ता के 10 अगस्त, 2022 अंक में प्रकाशित

इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि

प्रसावधानीवश उक्त विज्ञापन में एक बुटि हुई है,

जिसके फलस्वरूप 'रू. करोड़ में सिवाय ईपीएस'

के स्थान पर 'रू. करोड में सिवाय ईपीएस को

विज्ञापन में सभी फिगर्स को "रू. करोड़ में सिवाय

छोडकर रू. लाख में" प्रकाशित हुआ है।

अतः, कृपया निम्नलिखित शुद्धि नोट करें :

वेज्ञापन के संदर्भ में है।

ईपीएस" पदा जाए।

शेष सूचना यथावत रहेगी।

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 10.08.2022

UNIMODE OVERSEAS LIMITED

CIN: L51909DL1992PLC048444 Regd. Office: 304A/10178, Illrd Floor, Ravinder plaza, Abdul Aziz Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 Email ID: unimodeoverseaslimited@gmail.com, Website: www.unimodeoverseas.in Un-Audited Financial Results for the Quarter Ended 30th June 2022 (Rs. In Million)

S.	B-All-of-se	G	Year Ended		
No.	Particulars	30-Jun-22	31-Mar-22	30-Jun-21	31-Mar-22
		Un-Audited	Audited	Un-Audited	Audited
1	Total income from operations (net)	100	8.5	(*)	69
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/ or Extraordinary items)	-0.54	0.35	-0.44	-0.44
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	-0.54	0.35	-0.44	-0.44
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	-0.54	0.35	-0.44	-0.44
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/ (loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax))	-0.54	0.35	-0.44	-0.44
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value Rs. 10/- each)	5.01	5.01	5.01	5.01
7	Other Equity		-		
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operation)				
	Basic:	-1.09	0.69	-0.88	-0.88
	Diluted:	-1.09	0.69	-0.88	-0.88

- The above results after being reviewed by the Audit Committee have been taken on record by the Board at its Meeting held
- 2 The previous periods figures has been regrouped and reclassified where ever necessary
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com and Companies Website i.e. www.unimodeoverseas.in

By order of the Board For Unimode Overseas Limited

Ashish Goel Director

DIN: 00367103

Place: New Delhi Date: 10.08.2022

अरावली सिक्योरिटीज एण्ड फाइनेंस लिमिटेड

सीआईएन : L67120HR1980PLCO39125 पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट सं. 136, चौथा तल, राइडर हाउस, सेक्टर 44, गुरुग्राम-122003, हरियाणा ई-मेल : info@aravalisecurities.com, वेबसाइट : www.aravalisecurities.com

30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही हेतु स्टैण्डएलोन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (रु. लाख में

क्र. सं.	विवरण		समाप्त वर्ष		
		30/06/2022 (अलेखापरीक्षित)	31/03/2022 (लेखापरीक्षित)	30/06/2021 (अलेखापरीक्षित)	31/03/2022 (लेखापरीक्षित)
1	कुल आय	19.00	26.01	130.85	356.34
2	कर पूर्व अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(8.77)	(7.80)	96.74	226.69
3	कर पूर्व अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	(8.77)	(7.80)	96.74	226.69
4	कर पश्चात अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	(8.77)	(23.89)	89.77	165.04
5	अविध हेतु कुल व्यापाक आय [अविध हेतु (कर पश्चात) तथा व्यापक आय (कर पश्चात) से मिलकर लाभ/(हानि)]	(8.71)	(26.28)	89.82	162.81
6	इक्विटी शेयर पूँजी	1515.38	1515.38	1515.38	1515.38
7	आरक्षितियाँ (गत वर्ष के तुलन पत्र में पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)				1499.97
8	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक के)				
	बेसिक:	रु. (0.06)	रु. (0.16)	रु. (0.59)	रु. 1.09
	डाइल्यूटेड :	रु. (0.06)	रु. (0.16)	रु. (0.59)	रु. 1.09

1. उपरोक्त सेबी (सूचीबद्ध दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल 30 जून 2022 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है।अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) जहां कंपनी की प्रतिभूतियों/सूचीबद्ध हैं तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.aravalisecurities.com) पर उपलब्ध है। 2. उपर्युक्त वित्तीय परिणाम इण्डएएस 34 (अन्तरिम वित्तीय रिपोर्टिंग) में प्रावधानित मान्यता तथा मापन सिद्धान्तों एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य मान्यताप्राप्त

लेखांकन प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (''इण्ड एएस'') तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (''सूचीबद्धता विनियम'') के विनियम 33 के अनुपालन में तैयार किये गये हैं। 3. 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के उपर्युक्त परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गयी और 10 अगस्त, 2022 को आयोजित

निदेशक मण्डल की बैठक में अनुमोदित की गयी। 4. 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की समीक्षा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व वं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के तहत अपेक्षित विधिक

लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है। तथा उस पर अ-संशोधित अभिमत जारी किये गये हैं। 5. आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कराधान के प्रावधान समग्र वर्ष हेतु अपेक्षित करयोग्य आय के आधार पर तैयार किये गये है।

खण्ड के अनुसार कोई अलग से रिपोर्ट करने योग्य प्रचालन खण्ड नहीं है। 7. 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के ऑंकड़े 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष तथा संबंधित वित्त वर्ष के 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही तक तिथि

तक वर्ष के प्रकाशित आंकड़ों के संदर्भ में अंकेक्षित आंकड़ों के बीच अंतर होने के कारण संतुलनकारी आंकड़े हैं।

8. गत तिमाही/वर्ष के ऑकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए जहाँ आवश्यक समझा गया वहाँ पुनर्समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

कृते अरावली सिक्योरिटीज एण्ड फाइनेंस लिमिटेड

चेयरमैन एवं प्रबन्धक निदेशक

दिनांक : 10 अगस्त, 2022

6. वर्तमान में कम्पनी के प्रचालन केवल एक ही खण्ड अर्थात वित्तीय एवं अन्य परामर्श सेवाओं के प्रावधान तक सीमित हैं और तदनुसार इण्ड एएस 108-प्रचालन

बोर्ड के आदेशानुसार

रंजन कुमार पोद्दार

Dated: 10th August, 2022

NO DREAM TOO BIG -